



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 1978/श्रावण 9, 1900  
No. 223] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 1978/SRAVANA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1978

सोमा शुक्ल

सा०का०वि० 388 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962  
का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और  
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 65-सीमाशुल्क तारीख  
16 मार्च, 1978 को अधिकांत करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना

लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं० 1 के अन्तर्गत आने वाली काफी को, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाये, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्घाटनीय सीमाशुल्क के उसने भाग से छूट देती है जो प्रति क्विंटल 200 रु० से अधिक है ।

[सं० 148/का०सं० 347/7/78-टी०आर०यू०]

जोसेफ डोमिनिक, सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 1978

### CUSTOMS

**G.S.R. 388(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 65-Customs, dated the 16th March, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts coffee falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of Rs. 200 per quintal.

[No. 148/F. No. 347/7/78-TRU]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.